

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 जून 2023—ज्येष्ठ 31, शक 1945

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 21 जून 2023

क्रमांक-एफ-65NN-01-2023-पाँच-2636.- मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक-23, सन् 1956) की धारा 22 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (पूर्वार्द्ध) में माह जून-2023 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

| स. क्र. | नगरपालिका निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|--|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | नगरपालिका निगम, सतना, जिला-सतना. | पार्षद | 43 | तैंतालीस | सौरव उमेश मलिक (गोल्डी) | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
| 2. | नगरपालिका निगम, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा. | पार्षद | 42 | बयालीस | संदीप सिंह चौहान (छोटू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 3. | नगरपालिका परिषद्, डोंगरपरासिया, जिला-छिंदवाड़ा. | पार्षद | 6 | छः | पूजा पप्पू मरकाम | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
| 4. | नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, जिला-मंदसौर. | पार्षद | 27 | सत्ताईस | तबस्सुम साबीर हुसैन | इंडियन नेशनल काँग्रेस |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--|--------|-----|--------|---------------------------------|-----------------------|
| 5. | नगर परिषद्, सतवास, जिला-देवास. | पार्षद | 5 | पाँच | अरविन्द (लाला पटेल) | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
| 6. | नगर परिषद्, जौरा, जिला-मुरैना. | पार्षद | 18 | अठारह | बीरबल जाटव (ठेकेदार) | भारतीय जनता पार्टी |
| 7. | नगर परिषद्, बिलहरा, जिला-सागर. | पार्षद | 1 | एक | कमलेश सौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 8. | नगर परिषद्, बांदरी, जिला-सागर. | पार्षद | 10 | दस | पुष्पेन्द्र महेश यादव | भारतीय जनता पार्टी |
| 9. | नगर परिषद्, बुढ़ार, जिला-शहडोल. | पार्षद | 13 | तेरह | रश्मी सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 10. | नगर परिषद्, रतनगढ़, जिला-नीमच. | पार्षद | 13 | तेरह | मुकेश कुमार पिता कालूराम भील | भारतीय जनता पार्टी |
| 11. | नगर परिषद्, शाहपुर, जिला-बुरहानपुर. | पार्षद | 10 | दस | दिपाली पंकज राऊत | इंडियन नेशनल काँग्रेस |
| 12. | नगर परिषद्, कोटर, जिला-सतना. | पार्षद | 11 | ग्यारह | दीपा सुरेश पयासी (दादू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 13. | नगर परिषद्, सरदारपुर, जिला-धार. | पार्षद | 7 | सात | अमरसिंह सोनेर | इंडियन नेशनल काँग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अभिषेक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,